



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 276) पटना, मंगलवार, 10 फरवरी 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना - 800001

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2014

सं0 1272—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पीयर थाना के ग्राम+पो0—मतलुपुर स्थित बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1982 है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन, संचालन, विकास एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—948 दिनांक 05.08.2008 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल गजट प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों का था। अधिसूचना का गजट प्रकाशन 21 नवम्बर 2008 को हुआ। इस प्रकार न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान हो चुका है। न्यास समिति ने मंदिर के विकास, जिर्णोद्धार एवं पूजा—पाठ की सुव्यवस्था के लिए सराहनीय प्रयास किया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस न्यास के सुचारु संचालन के लिए एक नई न्यास समिति का गठन आवश्यक है। निवर्तमान न्यास समिति द्वारा नई न्यास समिति के गठन हेतु उक्त न्यास समिति एवं श्रद्धालुओं की बैठक में चयनित सदस्यों की सूची प्राप्त हुयी है। इसके आलोक में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु नई न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पीयर थाना के ग्राम+पो0—मतलुपुर स्थित बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर, मतलुपुर न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर, मतलुपुर न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	प्रो० (डा०) गोपाल जी त्रिवेदी (पूर्व कुलपति)	—	अध्यक्ष
(2)	श्री वीर चन्द्र ब्रह्मचारी	—	कोषाध्यक्ष
(3)	श्री राम कुमार त्रिवेदी	—	सचिव
(4)	श्री रमण कुमार त्रिवेदी	—	सदस्य
(5)	श्री मुन्न त्रिवेदी	—	सदस्य
(6)	श्री पारसनाथ त्रिवेदी	—	सदस्य
(7)	श्री बैद्यनाथ पाठक	—	सदस्य
(8)	श्री सुकदेव राय	—	सदस्य
(9)	श्री असेश्वर राय	—	सदस्य
(10)	श्री रामदेव सहनी	—	सदस्य
(11)	श्री ललन त्रिवेदी	—	सदस्य

उपरोक्त सभी का पता :- ग्राम+पो०-मतलुपुर, थाना-पीयर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-843115

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.01.2015 से पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 276-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>